



ब्रैम्पटन व्यापक स्थानीय बाढ़ का सामना कर रहा है

निवासियों को सुरक्षित रहने के लिए याद दिलाया जाता है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 फरवरी, 2022) – ब्रैम्पटन पूरे शहर में व्यापक स्थानीय बाढ़ का सामना कर रहा है। निवासियों को याद दिलाया जाता है कि वे बाढ़ के दौरान सुरक्षित रहें।

इस समय, सिटी जानती है कि निम्नलिखित जगहें, लोकल तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं:

- विंटसन चर्चिल बुलेवार्ड (Winston Churchill Boulevard) में वानलेस रोड (Wanless Road)
- बोवेअर्ड ड्राइव (Bovaird Drive) से वानलेस ड्राइव (Wanless Drive) तक हेरिटेज रोड (Heritage Road)
- हॉलस्टोन रोड (Hallstone Road) में क्रेडिटव्यू रोड (Creditview Road)
- स्टील्स एवेन्यू (Steeles Avenue) में क्रेडिटव्यू रोड
- स्टील्स एवेन्यू में चर्चविले रोड (Churchville Road)
- क्लारेंस स्ट्रीट (Clarence Street) ब्रिज
- पील विलेज (Peel Village) में किवानिस (Kiwanis) ब्रिज

यदि संभव हो तो निवासियों को इन क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए और सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करना चाहिए:

- रुके हुए पानी के साथ, इनडोर इलेक्ट्रिकल सिस्टमों और अंडरग्राउंड या नीचे गिरी हुई बिजली की तारों के द्वारा करंट आ सकता है। खुद को, बच्चों को और पालतू जानवरों को, रुके हुए पानी और नीचे गिरी हुई बिजली की तारों से दूर रखें।
- बाढ़ का पानी जल्दी से बहता है और डूबने का खतरा पैदा करता है। अपनी सुरक्षा कायम रखें तथा बाढ़ के पानी में ड्राइव न करें या चलें न।
- बिल्डिंग स्ट्रक्चर बाढ़ से प्रभावित होकर, असुरक्षित हो सकते हैं। पोर्च की छतों और बाहर निकले हिस्सों सहित, यदि नींव और स्ट्रक्चर खराब होने के कोई संभावी लक्षण नज़र आए तो अपने घरों से बाहर आ जाएं।
- बाढ़ का पानी, अकसर सड़कों और वाकवेज को नष्ट कर देता है। सड़कें कमज़ोर हो सकती हैं और कार के वज़न के नीचे टूट सकती हैं। बाढ़ के पानी में ड्राइव न करें या चलें न।
- बाढ़ के पानी में सीवेज (इसमें बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स हो सकते हैं), केमिकल और मलबा हो सकता है, जैसे टूटा हुआ कांच। सबसे नीचे के क्षेत्रों से दूर रहें। खुद को, परिवार को और पालतू जानवरों को, बाढ़ के पानी से दूर रखें।
- तब तक बाढ़ वाले क्षेत्र में प्रवेश न करें, जब तक कि आपने सही निजी सुरक्षात्मक उपकरण और कपड़े न पहने हुए हों।



यदि निवासी खतरे में हों, तो उन्हें तुरंत, 9-1-1 पर फोन करना चाहिए। म्युनिसिपल रोड्स पर लोकल तौर पर बाढ़, स्टॉर्म सीवर ग्रेट्स या बेसमेंट बाढ़ की रिपोर्ट करने के लिए, 311 पर फोन करें।

निवासी, बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स के लिए Twitter पर, [@BEMOPrepared](https://twitter.com/BEMOPrepared) को फॉलो कर सकते हैं और बाढ़ से सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca